

Kotak arm launches ₹2,000 cr pre-IPO fund

Neil Borate neil.b@livemint.com MUMBAI

otak Investment Advisors Ltd (KIAL), the alternative assets arm of the Kotak Mahindra Group, has launched a pre-IPO fund.

The Kotak Pre IPO Opportunities Fund is a category II Alternative Investment Fund (AIF) and positioned as an "India-focused late stage fund to invest into high quality companies with a strong moat of technology." AIFs have a minimum investment target of ₹l crore.

Investing in companies ahead of their initial public offerings has gained investor interest in India of late as seen in the case of high-profile IPOs such as Barbeque Nation in the recent past and others such as Paytm slated to go public in the near future.

As per the investor presentation for Kotak's fund, it will aim to raise ₹1,000 crore with a greenshoe option of ₹1.000 crore. It will have a tenor of five years from the final close. It will charge a fee of 1.8% for investments of less than ₹10 crore with 1.5% for the direct option of such investments.

For investments of ₹10 crore and above, charges will be lower at 1.5% for the regular option and 1.2% for the direct option. The direct option is for advisory clients of KIAL.

Apart from the fee, the fund will also charge a performance fee or carry of 20% of profits above a hurdle rate of 10% pretax. This means that the fund must deliver a return of more $than 10\% \, for the performance$ fee to kick in.

For investments greater than or equal to ₹10 crore, the carry will be 15%.

OTT PLATFORMS A DIVIDED IT rules not applicable HOUSE ON SELF-REGULATION to us: Google tells HC

Google says Delhi HC had 'mischaracterized' its search engine as an SMI

Saumya Tewari saumya.t@livemint.com NEW DELHI

ech giant Google moved the Delhi High Court on Wednesday to seek interim protection against the move to declare its search engine a "social media intermediary" (SMI) under the new information technology rules, legal website *Live Law* reported. The company urged the court to set aside a 20 April order passed by a single-judge bench, which involved the company in relation to cer-

tain offending content on a pornographic website. Google said although it was an intermediary, the high court judge had "mischaracterized" its search engine as a 'SMI' or 'significant social media intermediary'. Under the new rules, a social media intermediary is defined as an entity that prima-

rily or solely enables online interaction between two or more users and allows them to create, upload, share, modify or access information using its services. "Search engines are a reflection of the

content and information that is available on the internet. And while we maintain a consistent policy over removal of objectionable content from search results, the

Delhi High Court order has cast certain obligations that would wrongly classify Google search as a social media intermediary," a Google spokesperson told Mint. "The direction requires

proactively identifying and globally disabling access to any content which may be similar to the offending content, that may appear on any other websites/online platforms, or in any other context. We have filed an appeal against this part of the order and look for-

ward to explaining the steps we take to remove objectionable content from Google search results," he added. Google said its appeal is against the clas-

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED New Okhla Industrial Development Authority **Tata Consumer sets** CIN: L65929DL1947PLC001240; Email: pnbfinanceindustries@gmail.com r Jida rative Building, Sector-6, Noida, G.B. Nagar (U.P. (A Government of West Bengal Enterprise) Registered Office: Vidyut Bhavan, DJ Block, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700 091 CIN: U40101WB2007SGC113474 • web: www.wbsetcl.in Regd Office: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Tel No.: +91-7303495375, Website: www.pnbfinanceandindustries.com WBSETCL **E - TENDER NOTICE** NOTICE foot in the premium NIT No.: CE(P)/WBSETCL/ISO/21-22/07 Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF E-Tenders are invited from firms/contractors registered with for The Chief Engineer (Procurement) invites e-Tender for procurement of Isolators. Interested bidders may obtain bidding documents by registering the following jobs against which bids can be uploaded and same Members are hereby informed that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with vestor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 016 and amendment(s) thereto ("IEPF Rules"), all shares in respect of which dividend has not beer shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The nemselves to the e-tendering portal (https://wbtenders.gov.in or **D2C coffee market** https://etender.wb.nic.in) and thereby downloading the biddin Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & claimed by the shareholders for seven consecutive years or more shall be transferred by th documents from 03.06.2021 at 11:00 A.M. and shall be submitted (online up to 12:00 P.M. on 30.06.2021. Also visit the Company's website ompany in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) in terms of IEPF Rules. https://etender.up.nic.in. Please ensure to see these vebsites for any changes/amendments & corrigendum etc. ndividual notices to respective shareholders have been sent at their latest addresses available i www.wbsetcl.in) for details ICA- T6310(3)/2021 e Company records, inter alia, providing the details of shares liable to be transferred to IEPF f (A). Suneera Tandor aking appropriate action Job No./Work Name S.No. Amount The concerned shareholders are requested to claim unclaimed dividend on or before Septemb suneera.t@livemint.com 3, 2021, failing which their shares shall be transferred to IEPF as per the procedure prescribed ir 03/D(H)/DD(H)-I/2021-22, M/o Park (SH: NEW DELHI 1 Cost the Rules. The Company has uploaded details of such shares due for transfer to IEPF on its New Okhla Industrial Development Authority Plantation work) 2021-22 with two year ₹221.45 ebsite www.pnbfinanceandindustries.com. maintenance in sector- 22, 26, 27, 58, 62, ndida rative Building, Sector-6, Noida, G.B. Nagar (U.P. Lacs he concerned shareholders would be entitled to claim the shares from IEPF authority by making ata Consumer products 72, 119, 120 and 123, Noida an application in web form IEPF-5, as prescribed under the aforesaid rules and the same Ltd (TCPL) has launched vailable on IEPF website i.e. www.iepf.gov.in. **E - TENDER NOTICE** Which can be uploaded by date 17.06.2021 upto 5.00 PM a premium roasted and n case the shareholders have any gueries wrt subject matter and IEPF Rules, they may send thei Sonnets re-qualification shall be opened/downloaded on date ueries to the Company at mail id: pnbfinanceindustries@gmail.com or can contact Skyline Financial Services Private Limited (Registrar and Transfer Agent), D-153A, 1[#] Floor, Okhla ground coffee under the Son-E-Tenders are invited from firms/contractors registered with 18.06.2021 at 11.00 AM nets brand targeting urban and UPLC Lucknow for the following jobs against which bids can Director (Hort.) ndustrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Phone: 011-26812682/83, Email be uploaded and same shall be opened/downloaded as increasingly discerning coffee arveen@skylinerta.com. Shareholders are requested to kindly register their email address wit Office: Sector-39 Noida per schedule mentioned. The details and conditions of all drinkers in India. e Company or RTA at above given email addresses CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA tenders are available on Noida Authority's official website: For PNB Finance and Industries Lim The move marks TCPL's www.noidaauthorityonline.com & http://etender.up.nic.in. maiden foray into the direct-to-Date: 02/00/202 Place: New Dev Please ensure to see these websites for any changes/ Shweta S consumer market and it will let TCPL has launched a premium Company Secretary & amendments & corrigendum etc. the company tap a growing roasted and ground coffee 03/CGM/GM/SM(WC-10)/ET/2021-22, Name of (A)|1 number of buyers shopping under the Sonnets brand. Work: Short Term Global Tender for Procurement of online, especially during the Oxygen Cryogenic Tankers Fabricated as per pandemic when most are The premium coffee market यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण Standard EN 13530-2 : 2002/A1/2004 and in PV(U) cooped indoors and unable to is pegged at ₹70 crore to ₹100 Rules 2016 for Transportation of Liquid Oxygen. प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, सैक्टर–ओमेगा–1, (पी–2) ग्रेटर नौएडा सिटी, जनपद–गौतमबुद्व नगर MII IIA visit cafes and coffee shops. crore a year, said Das. The mar-Which can be uploaded by date 10.06.2021 upto 5.00 PM. Pre Sonnets will be exclusively ket is undergoing an evolution फोन न. : 0120–2395153/57/58 , वेबसाइट : www.yamunaexpresswayauthority.com qualification shall be opened/downloaded on date 11.06.2021 in terms of coffee drinking. The sold online, for now. at 11.00 AM. पत्रांक ः वाई.ई.ए. / भूलेख / 809 / 2021 <u>सार्वजनिक सूचना</u> दिनांक : 02 / 06 / 2021 launch of the new brand will "We have been focusing on General Manager निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम तिरथली सैक्टर–29 की भूमि को आपसी growing our business espeallow TCPL to grow its portfo-NOIĎA सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है lio as it tries to grab a bigger cially in beverages, that is, tea CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA <u>ग्राम तिरथली</u> and coffee. As part of the focus share of India's packaged foods खातेदार का खसरे का तहसील रिपोर्ट सडक ग्राम खाता गाटा कुल on the coffee portfolio-which and beverages market, he added. संख्या भूखुण्डों का नाम नाम व पता संख्य कूल क्षेत्रफ के अनुसार in India is largely instant filter Last year, TCPL said it will BSES **BSES Rajdhani Power Limited, New Delhi** का विवर (है0 में) (है0 में) काश्तकॉर का coffee-the idea was how do we acquire PepsiCo's stake in भागानसार **TENDER NOTICE** Date: 03.06.2021 keep introducing innovations. NourishCo Beverages Ltd-a क्षेत्रफल (है0में) Sealed tenders under Two Bid System (Unpriced & Priced) are invited for following job from all bidders. Sonnets is a step joint venture नरायन सिंह पुत्र तेजसिंह नि0 ग्राम में से 24 मी तिरथली 161 344 1.1750 0.0732 Date & Time of Opening Estimated Cost Cost of EMD Due Date & me of Submissio in that direction, The launch of the between the two NIT No Brief Item Description चौड़ी नगला श्री गोंपाल माजरा रबूपुरा (₹) targeted at a more new brand will firms सडक तह0 जेवर जिला गौतमबुद्धनगर CMC/BR/21-22/ 23/06/2021 discerning con-Earlier this **PROVIDING TEAM FOR RESOLUTION** 23/06/2021 1.25 allow TCPL to 2.51 Lacs 24 मी. जहीरूद्दीन पुत्र गॅफूर बेग तिरथली में से 2.0420 0.3241 year, RS/AR/926 OF SURVEILLANCE LEAD IN SIX Crores 15:30 HRS 15:45 HRS 84 639 sumer looking for it grow its portfolio <u>नि०</u> ग्राम तिरथली ौडी सड DIVISION OF BRPL announced the freshly ground as it tries to grab a 24 मी. तिरथली रामप्रसाद पुत्र सुखपाल नि0 ग्राम 272 1.7140 में से 0.6884 576 purchase of Kotroasted coffee Cost of each Tender Document : ₹ 1180/-ग्रौड़ी सड़व bigger share of delivered to their For any query call on 011- 4920 7235 or e-mail on brpl.eauction@relianceada.com



The tech giant said its appeal is against the classification of Google Search as a social media intermediary and not against the IT rules. BLOOMBERG

RULES don't clarify

whether a pure-play intermediary like

Google is under the ambit of SMI

sification of Google Search as a social media intermediary and not against the IT rules. The case hints at a greater need of clarity from the government on key definitions under the new rules and its implementation, said tech and legal experts. Gurshabad Grover, senior policy officer

FAILED SEARCH

SMI is an entity that THIS hints at a greater need of primarily or solely enables online clarity on key interaction between definitions under two or more users the new rules

> at the Centre for Internet and Society, said while the IT Act treats intermediaries based on their function, the new rules are entity based. According to him, the definition of social media intermediary under the new rules is also extremely broad and practically encapsulates everything. "Slack messaging app, for instance,

which is often used by an organization and

its employees, might have 500 million users but it might not fit the conventional definition of a social media platform." Going forward, Grover said, more firms

could contest the new rules. "Most obligations are on significant SMIs. A lot of these rules hinge on how one defines 'social media' and 'registered users'

which is still not clear," he added. Atul Pandey, partner, Khai-

tan and Co., a law firm, said the new rules do not clarify whether a pure-play intermediary like Google can come within the ambit of "social

media intermediary" or "significant social media intermediary".

"Considering the broad working of the exceptional circumstances under which intermediaries may be treated as significant SMI, there is certainly a greater chance of entities taking a legal route for seeking protection from such interpretation by the government," he added



shuchi.b@livemint.com

n March, this column had asked if over-thetop (OTT) video streaming platforms, which do not see eye to eye, will resort to forming more than one self-regulatory body. At the end of May, video-on-demand services split into two groups and announced the formation of two distinct bodies. One was set up by the broadcasterled OTT streaming platforms formed under the Indian Broadcasting Foundation (IBF), soon to be renamed Indian Broadcasting and Digital Foundation (IBDF) to reflect the inclusion of digital platforms. Their self-regulatory body is called the Digital Media Content Regulatory Council (DMCRC) for digital OTT platforms which is the second-tier mechanism at the appellate level, similar to the Broadcast Content Complaint Council (BCCC), which the IBF had set up for the linear broadcasting sector in 2011.

The other self-regulatory body continues to remain under the Internet and Mobile Association of India (IAMAI), which was where initially the first few content code drafts for OTT were prepared and trashed-first by the members themselves and then by the government. At least 10 streaming companies, such as Netflix. Amazon Prime Video, ALTBalaji and MX Player, have come under the IAMAI to form the Digital Publishers Content Grievances Council (DPCGC).

To be sure, both the courts and the government had been mounting pressure on streaming firms to set up a self-regulatory code as they had, thus far, remained free of any formal rules. Eventually, on 25 February, the government notified the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, which mandated a three-tier content regulation system for streaming platforms, among other things.

The split and the formation of IBDF and DMCRC took not just the media and entertainment industry by surprise, but also the remaining video-on-demand platforms that were left behind. At least two platforms Mint spoke to said they were taken aback by the sudden move of a handful of OTT services that joined the television broadcasters' lobby group. And, even though the new body has not named its members, among those who migrated are Disney+Hotstar, Zee5, SonyLiv and Voot.

'They could have done this in a cordial manner instead of a surreptitious move," said the chief executive officer of an OTT platform, which is part of the IAMAI-led regulatory body. The splinter group argued that the IAMAI was moving very slowly in setting up the regulatory systems. "It's strange that they say that. They were very much part of the working group that was preparing the charter. They were part of the process... so, it is very disingenuous of them to say IAMAI was delaying," said the OTT platform CEO, declining to be named.

A former industry executive said broadcast ers have been dealing with the information and broadcasting ministry for decades. For OTT content, too, this ministry is in charge. "Probably, OTT platforms thought it wise to come under the IBF umbrella, which has been dealing with the ministry for years. They probably didn't want to reinvent the wheel," he added.

An executive of an OTT platform, now part of the IBDF, said the IAMAI was breaching all deadlines and they had to be mindful of the government and the courts, which had raised issues around streaming

An executive of an OTT platform said that the IAMAI was breaching all deadlines

after complaints around Amazon Prime Video's web series Tandav. "We are India-cen-

content, especially

tric platforms and we will be here. We had to act quickly," the person said. "What foreign players don't under-

stand is that India is a slow-evolving market. They need to understand and respect its sensibilities," he added, pointing out to delays in building consensus around self-regulation.

The IBDF said it will create a credible, robust and practical code for content, with an inclusive and fair governance structure. Many feel that the broadcaster-led platforms are eager to please the government and will dilute the edgy OTT content. "That's a bogey raised by foreign players. We understand the difference between pull and push content. Content rules are different for OTT and TV. Why will we corner ourselves and show TV content on OTT," said the person mentioned above.

Yet, media industry experts said the OTT industry has shot itself in the foot. It's a bad idea to have two associations-there's strength in staying united.

Shuchi Bansal is Mint's media, marketing and advertising editor. Ordinary Post will look at pressing issues related to all three. Or just fun stuff.

PNB FINANCE AND INDUSTRIES LIMITED



उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो 15 दिन के अंदर अपनी लिखित आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। विशेष कार्यधिकारी

Think Ahead.

Think Growth.

Growth is not just dependent on working

Head (Contracts & Materials)

No.: U40109DL2001PLC11152

from office. It's also about making work happen, no matter from where.

Growth is...On.

beverages, India and South Sonnets is sourced from Tata Coffee's plantations in South

doorstep," said

Puneet Das, presi-

dent, packaged

lever Ltd and TCPL.

seurs in India.

The launch of Sonnets will

pit TCPL against new-age cof-

fee brands such as Dope Coffee

Roasters, Blue Tokai and Araku

who specialize in selling pre-

mium roasted and ground cof-

fee. These brands have found

favour among coffee connois-

Asia, TCPL.

under the Tata Sampann India. India's in-home coffee brand. It also sells beverages market mainly comprises of under Tata Tea, Tetley, Eight instant coffee and filter coffee O'Clock Coffee, Tata Coffee powder from companies such Grand brands in India and as Nestlé India, Hindustan Unioverseas.

> aging director and chief executive Sunil D'Souza said TCPL's "ambition is to become a large FMCG company" with immediate focus on food and beverages. Sonnets will also be available on Amazon. However, Das said the move to offline retail could take time.

India's F&B market

als and millet-based snacks. TCPL currently sells pulses, spices and ready-to-cook mixes

For details in respect of Equipment/BOM/Services, Qualifying requirements, Terms & conditions, purchase/submission of tender documents etc. please visit our website <u>www.bsesdelhi.com</u> of Soulfull brand of breakfast cere-

In a recent interview, man-

taram Agro

Foods-the maker

स्पोर्ट्स 🚺

फाइनल के आखिरी दो सेट तथा 2020 के सात

मैचों में सभी 21 सेट में जीत शामिल हैं। कोविड19



साउथम्पटन में १८ जून से न्यूजीलैंड से भिड़ेगा भारत नडाल और जोकोविच ने सीधे सेटों में जीत से अभियान शुरू किया

🛑 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की पर्याप्त तैयारी नहीं होने से चिंतित नहीं हैं कोहली

<u>भाषा। म</u>ुंबई

भारतीय कप्तान विराट कोहली न्यजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्युटीसी) फाइनल के लिए अपनी टीम की सीमित तैयारी से चिंतित नहीं हैं क्योंकि उनका मानना है कि अतीत में इंग्लैंड में खेलने के अनुभव से उन्हें हालात की जरूरी समझ है। भारत इस प्रतिष्ठित फाइनल मुकाबले में 18 जुन से साउथम्पटन में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। न्यूजीलैंड की टीम अभी इंग्लैंड के खिलाफ उसकी सरजमीं पर दो टेस्ट की श्रृंखला खेल जडी चीज है। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं मुश्किल हो सकती है।

कोहली ने कहा कि अगर उनकी टीम को सिर्फ चार अभ्यास सत्र भी हम क्या कर सकते हैं और हम सभी सत्र, घंटा दर घंटा अच्छा प्रदर्शन करेगी इंग्लैंड में खेल चुके हैं। उन्होंने कहा, वह चैंपियनशिप जीतेगी।

फाइनल में हारने से अब

भी नाराज हूं: अमित



फिर यह भारतीय टीम के साथ हो या भारत ए के साथ, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाडयि़ों के लिए, इसलिए हम इससे परेशान नहीं हैं और हम सिर्फ रही है जबकि भारत को ब्रिटेन पहुंचने मैदान पर उतरकर मौके का फायदा के बाद पथकवास से गजरना होगा और उठाना चाहते हैं। कोहली ने कोच रवि इसमें से तीन दिन होटल में ही रहना शास्त्री से सहमति जताई कि विश्व टेस्ट होगा। कोहली ने टीम की खानगी से चैंपियनशिप फाइनल काफी मायने पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा, देखिए अतीत रखता है। उन्होंने कहा, हम सभी टेस्ट में भी हम पूर्ण कार्यक्रम तैयार होने के क्रिकेट खेलने में काफी गौरव महसूस बावजद सिर्फ तीन दिन पहले मेजबान करते हैं और हमने एक टीम के रूप में देश में पहुंचे हैं और इसके बावजूद जिस तरह प्रगति की है वह इस बात का शानदार श्रुंखला हुई और हमने कड़ी उदाहरण है कि टेस्ट क्रिकेट हमारे लिए प्रतिस्पर्धा पेश की, इसलिए ए सब क्या मायने रखता है। भारत को पिछले चीजें दिमाग में होती हैं। कोहली ने जोर साल न्युजीलैंड में टेस्ट श्रुंखला में देते हुए कहा कि यह मानसिकता से शिकस्त झेलनी पडी थी और वहां के हालात इंग्लैंड के समान ही थे। है कि हम पहली बार इंग्लैंड में खेल न्युजीलैंड में हार से सीखे सबक के बारे रहे हैं, हम सभी को पता है कि यहां के में पूछने पर कोहली ने कहा, बेहतर हालात कैसे होते हैं। और यहां तक कि टेस्ट क्रिकेट खेलो। बस यही सब कुछ अगर हालात किसी तरह के हालात के है। हालात हमारे और न्यूजीलैंड दोनों आदी हैं, लेकिन अगर सही मानसिकता के लिए समान होंगे। उन्होंने कहा, के साथ मैदान पर नहीं उतरते हैं तो आस्ट्रेलिया के हालात आस्ट्रेलियाई आप पहली ही गेंद पर आउट हो सकते टीम के अनुकूल होने चाहिए थे हो या आपको विकेट हासिल करने में (लेकिन भारत जीता)। यह इस पर निर्भर करता है कि आप स्थिति को कैसे देखते हो। अगर आप चाहते हैं कि हम यहां से विमान में बैठें और महसूस करें मिलते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। कि न्यूजीलैंड का पलडा भारी होगा तो इस स्टार बल्लेबाज ने कहा, हमें मैच फिर वहां जाने को कोई मतलब नहीं है। से पहले चार अभ्यास सत्र में भी कोई कोहली ने कहा, हम यह जानते हुए समस्या नहीं है क्योंकि हम पूरी तरह विमान में बैठेंगे कि हमारे पास बराबरी सुनिश्चित हैं कि एक टीम के रूप में का मौका है और जो भी टीम सन्न दर

नतीजे के खिलाफ विरोध दर्ज किया

और मुकाबले के दूसरे राउंड की



लार्ड्स में बुधवार से शुरू पहले टेस्ट मैच में रॉस टेलर का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते इंग्लैंड के क्रिकेटर

न्यूजीलैंड के तीन विकेट पर २८६ रन

लंदन। टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कर बल्लेबाज टॉम लॉथम 23 और रन बनाकर मौजूद हैं। सलामी खेलनी है।

रहे डेवोन कोंवे के नाबाद शतक की कप्तान केन विलियमसन 13 रन मदद से न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के बनाकर आउट हो गए जबकि रोस खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले टेलर ने 14 रन बनाए। इंग्लैंड के दिन बुधवार को तीन विकेटपर 286 लिए पहला टेस्ट खेल रहे ओली रन बनाए। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर ॉबिनसन ने दो विकेट लिए। भारत पहले बल्लेबाजी का फैसला किया के खिलाफ 18 जून से होने वाले था। कोंवे 240 गेंद में 16 चौकों की विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल से मदद से 136 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहले न्युजीलैंड को इंग्लैंड के वहीं हेनरी निशोल्स दूसरे छोर पर 46 खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला

डब्ल्यूटीसी फाइनल भविष्य में बेस्ट ऑफ थी मुकाबला होना चाहिएः शास्त्री

मुंबई। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के शुरूआती मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने को तैयार लेकिन मुख्य कोच रवि शास्त्री मानते हैं कि लंबे समय में इस फाइनल को एक मैच के बजाय बेस्ट ऑफ थ्री मुकाबला होना चाहिए। भारतीय टीम 18 जून से साउथम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल आयोजित सेस कांफ्रेंस में बुधवार को की जरूरत है।

है



कहा, मुझे लगता है कि अगर वे इस टेस्ट चैम्पियनशिप अपनाना चाहते हैं तो भविष्य में बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल आदर्श होगा। ढाई साल के क्रिकेट के में खेलने के लिए गुरूवार को तडके समापन के लिए तीन मैचों की ब्रिटेन खाना होगी। इसके बाद टीम श्रृंखला। उन्होंने कहा, लेकिन उन्हें चार अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ पांच भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) मैच खेलेगी। शास्त्री ने खानगी से पूर्व खत्म करने और फिर से शुरूआत करने

पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेइ सीआईएन : एल६५९२९डीएल१९४७पीएलसी००१२४० ई-मेल : pnbfinanceindustries@gmail.com पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–11000 फोन : +91-7303495375 ; वेबसाइट : www.pnbfinanceandindustries.com

सूचना

कम्पनी के इकितटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण एतद्दारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की घासा 124(8) के साथ पठित निवेशव शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (देखांकन, तेखासरीक्षा, जंतरण और वाससी) नियागवली, 2016 और उसके संशोध (लो) (आईदेशीएफ नियमवली) के अनुसरण में कप्पनी द्वारा ऐसे सभी शेरव, आईईपीएफ नियमवली के अनुमान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिए जाएंगे, जिनके संबंध में शेयरपारकों द्वारा सात लगातार वर्षों अथवा अधिक से लामाश की मांग नहीं की गई है। संबंधित शेयरघारकों को कम्पनी में उपलब्ध उनके अंतिम ज्ञात पते पर व्यक्तिगत सचनाएं प्रेषित की जा वकी i

त्तवाचा रावरवारका का करना न उपसब्ब उनक आठन आव पत पर व्यावरागत जिसमें अन्य के साम्र आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के मागी शेयरों का बिव वे उपयुक्त कार्यवाही कर सकें। संबंधित शेयरघारकों से अनुरोध है कि वे अपना मांगा नहीं गया लाभाश 03 सितम्बर, 2021 को अथवा पूर्व मांग र


जिसमें असफल रहने पर उनके रोगर नियमावली में निपांसित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित कर दिए जाएंगे। कमनी आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के मानी होयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.phEmaceandindustries.com पर उपतले कर पुरकी है। संबंधित रोयरसारक ई-प्रमंत्र आईईपीएफ-5 में आवेदन देकर अपने रोयर आईईपीएफ प्राविकरण से वापस प्राप्त

करने के हकदार हैं, जैसाकि उपरोक्त नियमावली में निर्धारित किया गया है तथा जो आईईपीएफ की वेबसाइट

www.iepf.gov.in पर उपलबा है। यदि शेयस्यारकों को उपरोक्ता के विषय और आईईपीएफ नियमावली के बारे में कोई संदेह है, वे अपने प्रश्न कम्पन् में के स्वर्थ के अपने क्रम्पनारन फ़ल्टनीगर

एपी। पेरिस

लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने दबदबे के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए सीधे सेटों में जीत दर्ज करके अपने अभियान की शुरुआत की। फ्रेंच ओपन में अपने 14वें खिताब और रिकार्ड 21वें ग्रैंडस्लैम खिताब की कवायद में लगे नडाल ने पहले दौर के मैच में आस्ट्रेलिया के 21 वर्षीय खिलाडी अलेक्सी पोपिरिन को 6-3, 6-2, 7-6 (3) से हराया। इस



पेरिस। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे सेट में।-4 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए क्वालीफायर रोमन सेफुलिन को सीधे सेटों में हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस ट्रनॉमेंट में पुरुष एकल के ताँसरे दौर में जगह बनाई। दुसरे दौर में पांच सेट में जीत दर्ज करने वाले ज्वेरेव ने कडे मुकाबले में सेफुलिन को 7-6, 6-3, 7-6 से शिकस्त दी। ज्वेरेव क्ले कोर्ट पर होने वाले इस ग्रैंडस्लैम ट्र्नामेंट से पहले शानदार फॉर्म में थे। मैड्रिड में खिताबी जीत के बाद ज्वेरेव को रोलां गैरो पर खिताब के प्रबल दावेदारों में शुमार किया जा रहा है। ज्वेरेव ने मैड्रिड में दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी रफेल नडाल को हराया था जिनका पेरिस में रिकॉर्ड बेजोड है। महिला एकल में 2019 की उप विजेता मारकेटा वोंद्रोसोवा ने वाइल्ड कार्ड धारक हारमनी टेन को सीधे सेटों में 6-1, 6-3 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया।



के कारण पिछले साल फ्रेंच ओपन सितंबरअक्टूबर में खेला गया था। नडाल ने जीत के बाद कहा, मैं चोट को लेकर थोडा डरा हुआ था लेकिन यह अतीत की बात है। इस बार सब कुछ अधिक सहज है। नडाल तीसरे सेट में 52 से पीछे चल रहे थे, लेकिन इसके बाद उनके अनुभव के सामने पोपिरिन की एक नहीं चली। नडाल ने इस बीच आस्ट्रेलियाई लिए हैं। इनमें डोमिनिक थीम के खिलाफ 2019 के खिलाडी को गलतियां करने के लिए मजबूर किया।

U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd. C-20/1 A/7, Sector-62, No NIT No. 424 /NIT/Sheetla Mata/Gurugram/RNN/2021 Dated: 1.6.202

TENDER NOTICE

Percentage Rate online composite e-Tender in two bid system is invited for proposed Construction of Shree Sheetla Mata Devi Medical College at Kherki Mazara Sector-102, Gurugram (Haryana) having estimated cost Rs. 531.30 Crore (Rupees Five hundred thirty one Crores). Eligibility Criteria, detailed terms and conditions can be seen on web site https://etender.up.in and UPRNN's web site www.uprnn.upsdc.gov.in The e-tender can be submitted online till 25.6.2021 up to 2.30 PM. Technical bid of tender shall be opened same day at 3.00 PM. Amendment/ Corrigendum, if any, shall be posted on above web sites General Manager (Delhi Zone)

सार्वजनिक सूचना

Gicici Bank Green-110005 शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग निग्नलिखित कर्जदार∕रों ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मुलधन और व्याज के मुगतान में चुक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप मे

श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13 (2) के अधीन एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात

सं.	कर्जदार∕सह–कर्जदार∕गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रत्याभूत आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति का सम्पत्ति पता	प्रेषित सूचना की तिथि/सूचना की तिथि तक बकाया राशि	Idis
1	अभिनंदन जैन, सविता जैन, फ्लैट नंबर ए–0045, मुकन्दा रेजीडेंसी, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश खाता नंबर – एलबीएनओडी00004864030		12-04-2021 ▼. 28,36,030/-	31-07 2020
2	अभिषेक अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, नंर 417 खुरबुरा, मोहल्ला, देहरादून, उत्तराखंड खाता नंबर :– एलबीजीयूआर00004287565		12−04−2021 रू. 1,56,85,410.99 / −	31-08 2020
3	अभिषेक बर्धन, नेहा जॉली, 313 ई पाकेट 2 मयूर विहार फेज—1, दिल्ली खाता नॉबर — एलबीजीयूआर00002208923	डेवलपर के नाम से मशहूर, ग्राम दौलताबाद, सेक्टर—106, गुरूग्राम, हरियाणा	12─04─2021 रू. 53,66,500/─	31-07 2020
4	अजय कटारा, प्रेम कटारा, ए—73, प्रथम तल, एक्सटीशिया इन्फोसॉफ्ट एलएलपी, सेक्टर—5, नोएडा खाता नंबर — एलबीडीईएल00003680051	तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश	12—04—2021 ₹5. 19,83,309 /	31-03 2020
5	अजय शर्मा, अनीता शर्मा, सी–3/206, जनकपुरी, दिल्ली खाता नंबर — एलबीडीईएल00002195998	विला नंबर 4, दि लीजैंड सेक्टर-57, सुशांत लोक फेज-3, गुरूग्राम. हरियाणा	12-04-2021 ₹. 4,01,04,901/-	31-04 2020
6	अजय कुमार तिवारी, राशि, 320/10 गली नंबर 15, निकट गौतम विहार चौक, करतार नगर गढ़ी मेंडू, दिल्ली, खाता नंबर — एलबीडीईएल00004659187	जीएव–16एफ, सेक्टर–01, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश	12-04-2021 ক. 23,24,897/-	31-0 202
7	अजय कुमार तिवारी, तृष्णा तिवारी, ए-405, ए-लोटस पॉड 2ए, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, खाता नंबर – एलबीडीईएल00001992291	फुलैट नंबर सी−4, चतुर्थ तल, टावर सी−3, प्लॉट नंबर जीएव−05∕बी, सेक्टर−137, शुभकामना एडवर्ट टेकहोम्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश	12−04−2021 रू. 40,28,872.75/−	30-0 202
8	अखिलेश कुमार चौघरी, सुप्रिता चौघरी, प्लॉट नंबर 25, द्वितीय तल, ब्लॉक-ए केटी7, सेक्टर16, रोहिणी निकट सत्यम हॉस्पिटल, दिल्ली खाता नंबर एलबीडीईएल00004084338	ईको विलेज-3, प्लोंट नंबर जीएच-06, सेक्टर-16बी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश	12−04−2021 रू. 42,83,827 / −	31-0 202
9	अभित, सोनिया, मकान नंबर 41, हुडा बाईपास, सेक्जर-24, पानीपत, हरियाणा-खाता नंबर – एलबीपीएनपी00004383038	किते प्लॉट दर खेवट नंबर 691, खतौनी नंबर 801, खसरा नंबर 33 / /6 / 1 / 2(3-1), रकबा 3 कनाल 1 मरले का 1 / 4 हिस्सा, आबादी हुडा, सेक्टर-24, बाईपास, एमसी पानीपत की सीमा के भीतर, हरियाणा	12−04−2021 रू. 64.33.758/−	30-0 202
10	अभित थिरीश, वनजा थिरीश, एफ–911 जीसी–4 गौड़ सिटी–1, निकट गोलमूर्ति चौक, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश खाता नंबर – एलबीजीयूआर00003878354		12042021 ₹5. 96,73,204/	31-0 202
11	अमित जैन, जर्मिला जैन, गौरव जैन, रूप श्री नगर साहीज, 56 पंजाबी बाग, एस/एफ बैक साइड पोर्शन, अरिहंत नगर, दिल्ली खाता नंबर – एलबीएफडीबी00002559759		12-04-2021 ₹. 47,30,413/-	30-0 202
	अमित कोहली, विनोद कोहली, 2–सी–43, नेहरू नगर दिघाती, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश खाता नंबर – एलबीजीएवजैड00002473336	सं. 11, खसरा प्लॉट नंबर 301 पार्ट और 3सी बलबीर एवेन्यू ग्राम घरमपुर, देहरादून, उत्तरांचल	12042021 ₹. 39,95,068/-	31-0 202
13	अमित कोहली, विनोद कोहली, 2–सी–43, नेहरू नगर दिघाती, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश खाता नंबर – एलबीजीएचजैड0000248751	फुलैट नंबर 204, द्वितीय तल, एमीनेंट हाइट्स, टावर टी–3, सम्परित स. 11, खसरा प्लॉट नंबर 301 पार्ट और 30 बलबीर एवेन्यू ग्राम घरगपुर, देहरादून, उत्तरांचल	12042021 ₹5. 40,07,578/-	31-0 202
14	अनिल कुमार गुप्ता, हाईटेक अल्ट्रा विजन, निर्मल गुप्ता, 114–बी, सुंदर अपार्टमेंट्स, पश्चिम विहार, दिल्ली खाता नंबर – एलबीजीयूआर00002050183	फ्लैट नंबर डी–57, एफएफ, पेडस्टल, सेक्टर-70ए, गुरूग्राम, हरियाणा	12042021 रू. 26,98,415/-	31-0 203
	अनिल कुमार गुप्ता, हाईटेक अल्ट्रा विजन, निर्मल गुप्ता, 114-बी, सुंदर अपार्टमेंट्स, परिवम विहार, दिल्ली खाता नंबर – एलबीजीयूआर00002050188		12−04−2021 रू. 27,98,013/−	31-0 20:
6	अनिमेष मजूमदार, आशीष चन्द्र मजूमदार, अंकुर मजूमदार, कविता मजूमदार, केया मजूमदार, सी/ओ श्री आर एल अलघ, 6/3 म्युनिसिपल रोड, उत्तराखंड, देहरादून, खाता नंबर — एलबीडीईएव00001304465	फुलैट नंबर 204, हितीय तल, फुलैट टाइप-टी, तीरथ विकास अपार्टमेंट, 2 जीएच-4, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12−04−2021 रू. 2,21,991/-	31-1 20:
1	अंजला सिंह, भगवान सोनी, जे 1/270, डीडीए फूलैट काल्काजी, दिल्ली, खाता नंबर – एलबीजीयुआर00004249771	फ्लैट नंबर डी–1703, 17वां तल, अराविले–टावर डी, सेक्टर–79. गरूग्राम, हरियाणा	12-04-2021 ₩. 92,42,410/-	31-0 202
8	आशुतोष जोशी, राजेश्वरी जोशी, टावर नंबर 102, जेएमडी गार्डेन्ड, सोहना रोड, सेवटर-48, गुरूग्राम, हरियाणा खाता नंबर – एलबीडीईएल00002398422	3	12-04-2021 ₹5. 1,08,15,369.4 / -	31— 20:
9	अश्वनी कुमार चौहान, दीपिका चौहान, 1∕190, तृतीय तल, फ्रंट साइड, सुभाष नगर, दिल्ली, खाता नंबर – एलबीडीईएल00002072828	फ्लैंट नंबर 3ई–026, द्वितीय तल, ग्रीन व्यू–2, सहकारी आवास समिति लिमिटेड, क्रोसिया एस्टेट, सेक्टर–पी।, ग्रेंटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	12-04-2021 ₹5. 9,35,737.19/-	19 (20:
20	अवध राज सिंह, सीमा कश्यप, आरजैंडजी 575, राज नगर–।।, पालम कालोंनी, दिल्ली, खाता नंबर — एलबीडीईएल00002078548	फ्लैट नंबर 307, तृतीय तल, मनहर गार्डन, सिकन्दरा बोडला रोड, निकट हरीश नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश	12042021 रू. 25,35,092/	31-4 20:
21	आजाद सिंह, सविता, एनएसआर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेढ, फूलैट नंबर 716, टावर सी—4. सिडको शिवालिक अपा. सेक्टर – फर्स्ट आईएमटी मानेसर, मुरूग्राम, खाता नंबर – एलबीडीईएल00004842089		12-04-2021 रू. 1,18,01,572∕-	31-0 203
22	बाबू आबिद हुसैन, शबनम एम, नंबर 13 सराय जुलेना, निकट एस्कोर्ट हॉस्पिटल, दिल्ली खाता नंबर — एलबीजीयूआर00003110303	फूलैट नंबर टी–601, टावर–1, छठा तल, आर्केडिया हिलॉक्स, खसरा नंबर 26/2, 75/1, 82, 92/3, 77/1, 78/1, 25, 79, 80, 91, 76, बकराल गांव निकट झीआईटी यूनिवर्सिटी मसूरी रोड उत्तराखंड देहरादून	12-04-2021 रू. 86,80,690.62∕-	31—(202
3	विनोदानंद झा, समोला देवी, कुंदन कुमार झा, 11 सेक्टर-9 डीढीए पाकेट 1, द्वारका, दिल्ली, खाता नंबर – एलबीढीईएल00003789086	डीडीए एसएफएस कैंट–।।।, फुलैट नंबर 243, द्वितीय तल, सेक्टर–9, द्वारका, दिल्ली	12−04−2021 रू. 57,93,717/-	31-1
4			12042021 ₹5. 44,01,371.55/-	31-1 20:
25	दीपा गोयल, मनोज गोयल, 48 कृष्ण कुंज, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश खाता नंबर – एलबीएमओडी00002729427	मकान नंबर 230, खसरा नंबर 2, मोहल्ला इन्द्र नगर, राजस्व ग्राम लतीफपुर टिबडा, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	15-04-2021 v. 2,46,512/-	31-4 203
26	दीपा गोयल, मनोज गोयल, 48 कृष्ण कुंज, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश खाता नंबर – एलबीएमआरटी00002887358	मकान नंबर 230, खसरा नंबर 2, मोहल्ला इन्द्र नगर, राजस्व ग्राम लतीफपुर टिबडा, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	15−04−2021 रू. 1,46,940 / −	31-0 202
7	दीपा गोयल, मनोज गोयल, 48 कृष्ण कुंज, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश खाता नंबर – एलबीएमआरटी00004557930	मकान नंबर 230, खसरा नंबर 2, मोहल्ला इन्द्र नगर, राजस्व ग्राम लतीफपुर टिबढ़ा, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला माजियाबाद, उत्तर प्रदेश	15-04-2021 रू. 11.01.543∕-	31—0 20:
8	दीपक सेटी, प्रबजोत कौर भट्टी, 5/197, सुभाष नगर, दिल्ली खाता नंबर – एलबीडीईएल00003455317	फूलैट नंबर 1407, 14वां तल, गोल्फ विलेज टावर-सी4, ब्लॉक सी4, टीएस-05, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश	12042021 रू. 39,32,076/-	31—1 20:
	दिलीप कुमार मिश्रा, मनीषा, निल 29ए प्रथम तल, मालवीय नगर, दिल्ली खाता नंबर – एलबीकीईएल00002004128	यूनिट नंबर केआरएच0193202, क्रीसेंट होम्स केआरएच–19, जेपी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश	09042021 ₹. 2,33,451/-	31-0
	दिनेश कुमार, दर्शना, ई–198, डा. अम्बेडकर नगर, सेक्टर–5, दक्षिण पुरी, दिल्ली खाता नंबर – एलबीडीईएल0001898530	विलेज, फरीदाबाद, हरियाणा	12-04-2021 ₹. 41,10,958.4/- 12-04-2021	31-0
	दिनेश कुमार, दर्शना, ई–198, डा. अम्बेडकर नगर, सेक्टर–5, दक्षिण पुरी, दिल्ली खाता नंबर – एलबीडीईएल00001974043	विलेज, फरीदाबाद, हरियाणा	₹6. 23,78,244/-	31-0 203
32	दिनेश कुमार, मंजू देवी, डी के सेनलाल स्टोर ऐंड सन्स, 73 के सामने, निकट सानी मनोइरसा आरहौल, गुरूग्राम, हरियाणा, खाता नंबर — एलबीजीयुआर00004213020	नोएडा, उत्तर प्रदेश	12-04-2021 ₹. 59,27,488/- 12-04-2021	31-0 202 31-0
	दिवाकर कुमार, पल्लवी कुमार, मकान नंबर सी-30 ए. फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव, इग्नू रोड, निकट गेट नंबर 3, दिल्ली खाता नंबर – एलबीएफडीबी00002089814	मकान नबर 2392 पा, मू तल, अरावला विहार, संक्टर-49, फरादाबाद. हरियाणा	रू. 28,12,241.7/-	203
		फुलैट नंबर 104, प्रथम तल, टावर ओ2, प्लॉट नबर जीएच-06 ईको	12-04-2021	and the little
34	राड, 1900 गए गए गर 3, 1900 गय 3, 1 दुला राम मीणा, सुमन मीणा, मकान नंबर 64 जी/पोल नंबर डी-742, पालम, ग्राम नासिरपुर, दिल्ली खाता नंबर – एलबीएनओडेी00004233165 दुर्गा दास, सिमरजीत कौर, 192, घूदियाल सीजीएवएस लिमिटेड पीतमपुरा नॉर्थ	विलेज–।।।, सेक्टर–18बी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश	12-04-2021 ₹. 51,98,752.84/- 12-04-2021	203

पदक प्रदर्शन को अपने करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करार किया लेकिन वह इसके फाइनल में मिली हार से अब भी थोड़े नाराज हैं। हरियाणा का यह 25 वर्षीय मुक्केबाज गत चैम्पियन था लेकिन दुबई में समीक्षा की मांग की जिसे ज्यूरी ने एशियाई चैम्पियनशिप के फाइनल में करना पड़ा। भारतीय टीम ने इस

ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर

चुके भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल

एशियाई चैम्पियनशिप में रजत

भाषा। नई दिल्ली



दोहा (भाषा)। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमक ने बुधवार को कहा कि 2022 विश्व कप क्वालीफायर के पहले चरण में कतर को गोलरहित ड्रा पर रोकना काफी आश्चर्यजनक था और गुरूवार को फिर से एशियाई चैम्पियन को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। भारत ने यहां सितंबर 2019 में मजबूत कतर को 0-0 से ड्रा पर रोका था जो हालिया समय में टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ नतीजों में से एक माना जा रहा है। स्टिमक के खिलाड़ी गुरूवार को यहां विश्व कप और एशियाई कप के संयुक्त क्वालीफायर के दूसरे चरण के मैच में इसी प्रतिद्वंद्वी से भिड़ेंगे। स्टिमक ने मैच से पूर्व आयोजित प्रेस कांफ्रेस में कहा, हमने पिछले मैच में कतर के खिलाफ जो भी नतीजा हासिल किया. उससे हमें काफी गर्व है। दुनिया भर में सभी के लिए यह हैरानी भरा था कि भारत ने दोहा में एशियाई चैम्पियन कतर से ड्रा खेला। उन्होंने कहा, लेकिन वो अलग हालात थे। वहां हमारे पहुंचते ही हमें अपने हजारों दर्शक मिले थे जो हमें अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे थे और हमें लग रहा था कि हम घरेलू मैदान पर खेल रहे थे। उन्होंने कहा, लेकिन मैं दोहराता हूं कि ऐसा 10 में से एक मैच में हो सकता है कि कतर के खिलाफ एक अंक मिल जाए। उनकी टीम इतनी शानदार है और एशिया में सर्वश्रेष्ठ टीम है।

याद रायरचारका का अपशंका का विषय आर आइइ भाएंक गायमावला क भार न काई सरह ह, व अपन प्रश्न कामन को नेस आईदी : phofinanceindustries@gmail.com पर नेज सकते हैं अयता स्काईस्ताइन फाइनेशियन सर्विसेज प्राइवेट लिगिटेड (रजिस्ट्रार एवं ट्रांसकर एजेन्ट), डी–153ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1 नई दिल्ली-110020. फोन : 011-26812682 / 83 ई-मेल : parveen@skylinerta.com से सम्पर्क कर सक खारिज कर दिया। मौजुदा एशियाई हैं। शेयरपारकों से अनुरोध है कि वे कृपया अपना ई-मेल पता कम्पनी अथवा आरटीए के पास ऊपर दिए ई-मेल पर पंजीकृत करवा लें। उन्हें उज्बेकिस्तान के मौजूदा विश्व खेलों के चैम्पियन पंघल ने कहा, 52 वास्ते पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्टीज लिमिटेड और ओलंपिक चैम्पियन शाखोबिदिन किग्रा वर्ग में यह मेरा अब तक हस्ता. / तिथि : 02-06-2021 जोइरोव से 3-2 से हार का सामना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मुझे उस फाइनेस श्वेता सक्से कम्पनी सेक्रेटरी एवं निवे थान : नई दिल्ली को जीतना चाहिए था। जेश इडस्ट्रीज लिमिटेड पंजी. कार्यालय : 43∕5, बहलगढ़ रोड, सोनीपत −131021 फोन ः 0130 — 2216666 सीआईएन ः एल24302एचआर1985पीएलसी022758 वेबसाइट ः www.jaschindustries.com, ई–मेल ः accounts@jasch.biz 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु लेखापरीक्षित आईएनडी एएस वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण (सूचीयन विनियमावली के विनियम 47(1)(ख) के तहत पृथक्कृत वित्तीय परिणाम) (रू. लाख में विवरण पृथक्कृत तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त 31.03.21 31.12.20 31.03.20 31.03.21 31.03.20 लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित नेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित 1. प्रचालनों से कुल आय 4984.58 4449.16 3218.28 13567.63 13077.64 2. ब्याज, मूल्यहास एवं करों से पूर्व लाभ 754.17 642.62 337.54 1909.27 1154.72 (ईबीआईटीडीए) अवधि हेतु शुद्ध लाम (कर तथा अपवाद मदों से पहले) 669.93 561.14 212.95 1561.97 620.02 अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर से पहले (अपवाद मदों के बाद) 669.93 559.61 1560.44 620.02 212.95 493.37 394.22 453.72 5. अवधि हेत् शुद्ध लाभ कर पश्चात (अपवाद 149.65 1135.20 मदों के बाद) अवधि हेतु कुल समावेशी आय (जिसमें 520.44 394.22 1162.27 453.72 149.65 अवधि हेत् लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित **ž**] 7. इक्विटी शेयर पूंजी 1133.00 1133.00 1133.00 1133.00 1133.00 5818.84 5298.40 4656.57 5818.84 4656.57 8. संचेय 9. प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का 4.35 3.48 10.02 4.00 1.32 मूल एवं तनुकृत : नोट्स : (1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए इन वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित रूप है। इन वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.jaschindustries.com पर भी उपलब्ध है। (2) कम्पनी ने ये परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के तहत निर्घारित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किए हैं। 3) पूर्व अवधियों हेतु आंकड़े, जहां आवश्यक है, चालू अवधि के वर्गीकरण के समनुरूप बनाने के लिए पुनर्समूहित किए गए हैं। हस्ता./– (जे. के. गर्ग) सोनीपत, 29–05–2021 प्रबंध निदेशक